

MMSY (NDB)

M.B.No - 632 - 2

2 - 2 - 2

Schedule XLV-Form No. 134

प्रोटोटाइप विभाग से देखा गया

प्रिया. राजेश
DIVISION

उपर्युक्त विभाग
SUB-DIVISION

M.B.No - 632

MEASUREMENT BOOK

Chandrapur Kharan M.C. Gaffner.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुल में सठीन द्वारा अंकित
छाल - 100 (एक खौ) पर ने दृष्टिस्थ
स्थापक अंडाखंड, व्यामोण कार्य
विभाग, कार्य अपर प्रमाण, बोलाडोर
को निर्दिष्ट किया जाता है।

Munir
Executive Engineer १५/१/२०२३
R.W.D. Works Div.
Gogri
~~प्रमाणित
द्वारा~~
०५८१२

Sch. XLV - Form No. 134

प्रहंत शाहरी DIVISION
अपर प्रमाण, बोलाडोर SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

632

3rd year maintenance

7

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work, Pothathai P.10.13					
road Kathpuliya te					
Nakathabata secondary chool.					
Agency - Chandan Kumar					
Agreement No. - 01 S.R. of 2019, 2020					
Date of start. 18.6.2019					
Date of end. 17.6.2020					

① Restoration of Roads

Berm width

Soil norm

$$2 \times 4 \times 20.00 \times 1.00 \times 0.15 = 24.00$$

$$2 \times 2 \times 30.00 \times 1.00 \times 0.15 = 18.00$$

$$2 \times 4 \times 30.00 \times 1.00 \times 0.15 = 36.00$$

$$2 \times 4 \times 20.00 \times 1.00 \times 0.15 = 24.00$$

$$2 \times 6 \times 15.00 \times 1.00 \times 0.15 = 27.00$$

$$2 \times 2 \times 25.00 \times 1.00 \times 0.15 = 15.00$$

$$2 \times 2 \times 30.00 \times 1.00 \times 0.15 = 12.00$$

$$2 \times 2 \times 15.00 \times 1.00 \times 0.15 = 9.00$$

Total, 146.00

② Making up of berms)

Shoulder striping

Grass soil - d. -

$$2 \times 4 \times 20.00 \times 1.00 = 24.00$$

$$2 \times 4 \times 25.00 \times 1.00 = 20.00$$

$$2 \times 6 \times 20.00 \times 1.00 = 24.00$$

Continuation

Total, - 680.00/-

ABST RE CT 10 of cost
Sch. XLV-Form No. 131.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Preparation of drains					
Dug up with Soil					
moorun - d ₁ -					
Only width m. b. 17					
Area $\pi \times 17 \times 246.0m^3$					
C.D. $380.58 m^3 = 93622 =$					
② Making up drains					
shoulder strip by					
spade & Soil -					
Only width m. b. 8					
Area $\pi \times 8 \times 1360 m^2$					
C.D. $58.37 m^2 = 79383 =$					
③ Repair of holes holes					
Filled with 15 mm					
W. D. m. - d ₁ -					
Only width m. b. 18					
Area $\pi \times 18 \times 926.25 m^2$					
C.D. $283.12 m^2 = 64067 =$					
④ Patch repair over					
Dismantled surface					
with 20 mm. n.					
Only width m. b. 19					
Area $\pi \times 19 \times 226.25 m^2$					
C.D. $221.45 m^2 = 52366 =$					
Continuation					Total - 289438 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5) maintenance of Road					
Signer. 80 -					
cylindrical road					
Width					
Ob 0.57 Km					
Or. 1074.511 Km = 562.0					
(6) maintenance of 800 M					
oval Km 800 m					
cylindrical road					
Width Ob 0.63 Km					
Or. 525.121 Km = 216.0					
(7) cutting of branch					
of Tree and shrubs					
(A) Ob width 30 m (B)					
Width 30 (A)					
Ob 27 Nos Or. 16.52 / .746 =					
Ob width 11 m (C)					
Width 11 (C)					
Ob 32 Nos					
Or. 6.54 / No. = 216.0					
(B) Ob width 10 m (D)					
Width 10 (D)					
Ob 18 Nos					
Or. 2.18 / M ² = 39.00					
Or. 2.18 / M ² = 39.00					
Total 291.217 =					
Continuation					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(8) Road marking with Hot APP & the thermoplastic.					
Only width M. 12 X 10					
Width (8) 10' 540.00					
10' 851.00 m ² = 459.50/-					
Total = 7507.50/-					
Less 3.01% Below. (7225.97/-)					
Net = 7225.97/-					
27/06/20					
27/06/2020					
27/06/2020					

27/06/2020
27/06/2020
27/06/2020
27/06/2020